

प्रेस नोट दिनांक 17.06.2021

थाना बारादरी जनपद बरेली।

थाना बारादरी #bareillypolice द्वारा घर में संचालित अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा कर अवैध शराब बनाने के उपकरण, 13 पेटी अवैध देशी एवं अंग्रेजी शराब, नकली रेपर, नकली बार कोड, ईएनए, कलर रसायन, एल्कोहल मीटर, खाली पच्चे करीब 02 बोरी, ढक्कन इत्यादि बरामद, कर दो अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय के आदेशानुसार अवैध शराब विक्री एवं निष्कर्षण के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में श्रीमान साद मियां खान, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा दौराने चैकिंग अवैध शराब की विक्री करते समय अभियुक्त दीप पुत्र गंगाप्रसाद नि0 दुर्गादेवी मन्दिर वाली गली मो0 गंगापुर थाना बारादरी बरेली को देशी शराब ब्राण्ड सोल्जर, ड्रीम गर्ल, गोल्डन ग्रीन के देशी पच्चों सहित गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ में अवैध शराब की फैक्ट्री मौ0 शान्ति बिहार थाना सुभाषनगर में चलना बताया गया, जिसकी निशादेही पर छापा मारकर मौके से ग्रह स्वामी राजीव कुमार गुप्ता पुत्र सत्यवीर गुप्ता नि0 13/12 मो0 दुर्गा कालोनी शान्ति बिहार थाना सुभाषनगर जिला बरेली के मकान में नकली शराब का निर्माण होना पाया गया। इस कार्यवाही के दौरान मौके से दो अभियुक्त फरार होने में सफल रहे। इस कार्य में गृह स्वामी राजीव कुमार गुप्ता की संलिप्तता भी उजागर हुई, इस आधार पर अभियुक्त राजीव कुमार गुप्ता उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा इनके घर के नीचे के कमरे से नकली शराब बनाने का बार कोड व ईएनए. लगभग 20 लीटर व 13 पेटी देशी शराब के पच्चे बरामद किए गए, जिसके आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 451/2021 धारा 60(1) EX ACT व 420/467/468/471 IPC पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को जेल भेजा जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:— अभि0गण द्वारा फर्जी/कूटरचित रेपर लगाकर नकली शराब बनाना व मौके से 02 अभि0गण गिरफ्तार एवं 02 अभि0 फरार।

अपराध करने की कार्य प्रणाली:— अभि0 दीप S/O गंगा प्रसाद उपरोक्त 2. राजीव कुमार गुप्ता S/O सत्यवीर गुप्ता उपरोक्त R/O 3. अर्जुन पुत्र राजवीर उपरोक्त 4. एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा राजीव कुमार गुप्ता के मकान में फर्जी/कूटरचित रेपर लगाकर नकली शराब ब्राण्ड सोल्जर, ड्रीम गर्ल, गोल्डन ग्रीन को ENA व रंग प्रदान करने वाला रसायन मिलाकर बनाकर बेचना

गिरफ्तार/फरार अभि0गण का नाम व पता :-

1. गिर0शुदा दीप S/O गंगा प्रसाद R/O दुर्गा देवी मन्दिर वाली गली मोहल्ला गंगापुर थाना बारादरी बरेली।
2. गिर0शुदा राजीव कुमार गुप्ता S/O सत्यवीर गुप्ता R/O 13/12 मो0 दुर्गा कालोनी शान्ती विहार थाना सुभाषनगर बरेली।
3. मौके से फरार अर्जुन पुत्र राजवीर नि0 नामालूम।
4. मौके से फरार एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात।

बरामदगी का विवरण :-

1. 40 अदद सोल्जर देशी शराब के पौचे
2. 11 पेटियो मे ड्रीम गर्ल (Whisky) के 482 पौचे
3. दो पेटियो में गोल्डन ग्रीन के 58 पौचे
4. एक काली प्लास्टिक की जरीकेन लगभग 20 लीटर ENA
5. एक अदद बोतल अंग्रेजी शराब को रंग प्रदान करने वाला रसायन आधी बोतल से कम,
6. जिसमें 200 एमएल बतौर नमूना तथा एक बण्डल प्रिरेग रेपर
7. 35 अदद फर्जी/कूट रचित बारकोड
8. एक अदद तीव्रता मापक Alcoholometer% Rang: 0-100 काँच
9. दो बोरी महमूला खाली पौचे ड्रीम गर्ल के 506 अदद व गोल्डन ग्रीन के 280 अदद
10. एक बोरी I.B के खाली काँच के 19 हाफ/पौचे व ढक्कन 16 समैकडावल की खाली काँच की 12 हाफ व ढक्कन

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री अजय कुमार शुक्ला चौकी प्रभारी श्यामगंज थाना बारादरी बरेली
2. उ0नि0 श्री नितेश कुमार शर्मा
3. का0 1711 कपिल
- 4- का0 1196 अक्षय कुमार

**प्रभारी निरीक्षक बारादरी
जनपद बरेली।**